



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2016/फाल्गुन 13, 1937

No. 79]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2016/ PHALGUNA 13, 1937

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

शुद्धि पत्र

पटियाला, 29 फरवरी, 2016

फा. सं. 357/20.—स्टेट बैंक ऑफ पटियाला द्वारा जारी अधिसूचना (स्टेट बैंक ऑफ पटियाला साधारण विनियम, 2015) जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 (सं. 383) दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 में प्रकाशित हुई थी के हिन्दी अनुवाद में कुछ त्रुटियां रह गई थी उन्हें निम्न प्रकार पढा जाए :—

| क्र.सं. | पृष्ठ सं. | पैरा नं. | पंक्ति नं. | वर्तमान सामग्री | इस तरह पढा जाए |
|---------|-----------|-------------|------------|--|--|
| 1 | 01 | 1(1) | 12 | इन विनियमों का संक्षिप्त स्टेट बैंक ऑफ पटियाला साधारण विनियम, 2015 है। | इन विनियमों का नाम स्टेट बैंक ऑफ पटियाला साधारण विनियम, 2015 हैं। |
| 2 | 02 | 2(1)(ज) | 18 | "प्रबंध निदेशक" से अधिनियम की धारा 29 के अधीन नियुक्ति अनुपंगी बैंक का प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है ; | "प्रबंध निदेशक" से अधिनियम की धारा 29 के अधीन नियुक्त अनुपंगी बैंक का प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है ; |
| 3 | 02 | 2(1)(ड)(ii) | 28 | किसी जिला बोर्ड, नगरपालिक समिति या अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा | किसी जिला बोर्ड, नगरपालिका समिति या अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा |
| 4 | 03 | 4(2) | 17 | साम्या शेयर पूंजी शेयर पूंजी का वह भाग है, जो अधिमानी शेयर पूंजी नहीं है। | साम्या (इक्विटी) शेयर पूंजी शेयर पूंजी का वह भाग है, जो अधिमानी शेयर पूंजी नहीं है। |
| 5 | 03 | 4(3)(क) | 20 | लाभांशों की बाबत इसमें एक नियत रकम संदत्त करने का अधिमानी अधिकार या नियत दर या प्लवमान | लाभांशों की बाबत इसमें एक नियत रकम संदत्त करने का अधिमानी अधिकार या नियत दर या प्लवमान (फ्लोटिंग) |
| 6 | 03 | 5 | 29 | साम्या या अधिमानी शेयरों के निर्गम द्वारा निर्गम पूंजी में वृद्धि करने की प्रक्रिया | साम्या (इक्विटी) या अधिमानी शेयरों के निर्गम द्वारा निर्गम पूंजी में वृद्धि करने की प्रक्रिया |
| 7 | 03 | 6(2) | 38 | अनुपंगी बैंक को शेयर धारकों के रजिस्टर में प्रविष्टियों की बाबत जांच करने की और अंतरणों और पारेषणों को पास करने की | अनुपंगी बैंक को शेयर धारकों के रजिस्टर में प्रविष्टियों की बाबत जांच करने की और अंतरणों और पारेषणों (ट्रांसमिशन) को पास करने की |

| | | | | | |
|----|----|----------|-------|---|---|
| 8 | 04 | 7(2) | 06 | भागीदारी फर्मों की दशा में शेयरों को व्यष्टिक भागीदारों के नाम में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और इस प्रकार कोई | भागीदारी फर्मों की दशा में शेयरों को व्यष्टिक भागीदारों (इंडिविजुअल पार्टनर्स) के नाम में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और इस प्रकार कोई |
| 9 | 04 | 10(2) | 28-31 | किसी शेयर धारक को रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट या डिस्कट बनाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा किंतु उसे सिवाय तब जब रजिस्टर बंद कर दिया गया है, रजिस्टर की या उसके किसी भाग की कागज प्ररूप में या इलेक्ट्रॉनिकी प्ररूप में उसके लिए ऐसी दर पर पूर्व संदाय करने पर, जैसा समय-समय पर बोर्ड या कार्यपालक समिति विनिश्चय करें, अनुज्ञात किया जा सकेगा। | किसी शेयर धारक को रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट या डिस्क बनाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा किंतु उसे सिवाय तब जब रजिस्टर बंद कर दिया गया है, रजिस्टर की या उसके किसी भाग की कागज प्ररूप में या इलेक्ट्रॉनिकी प्ररूप में उसके लिए ऐसी दर पर पूर्व संदाय करने पर, जैसा समय-समय पर बोर्ड या कार्यपालक समिति विनिश्चय करें, अनुज्ञात किया जा सकेगा। |
| 10 | 04 | 11 | 32 | शेयर रजिस्टर का बंद करना | शेयर रजिस्टर को बंद करना |
| 11 | 05 | 12(02) | 3-4 | मुद्रित उत्कीर्णित, अशमलेखित किया जाएगा या किसी अन्य यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, जैसा बोर्ड या कार्यपालक समिति निदेश दे, चिन्हित किया जाएगा। | मुद्रित, उत्कीर्ण , लिथोग्राफ किया जाएगा या किसी अन्य यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, जैसा बोर्ड या कार्यपालक समिति निदेश दे, चिह्नित किया जाएगा। |
| 12 | 05 | 12(03) | 05 | इस प्रकार मुद्रित उत्कीर्णित, अशमलेखित या अन्यथा चिन्हित हस्ताक्षर वैसे विधिमन्य होंगे मानो हस्ताक्षरकर्ता के | इस प्रकार मुद्रित , उत्कीर्ण , लिथोग्राफ या अन्यथा चिह्नित हस्ताक्षर वैसे विधिमन्य होंगे मानो हस्ताक्षरकर्ता के |
| 13 | 05 | 14 | 26 | नए या अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्रों का निर्गम | नए या अनुलिपि (डुप्लिकेट) शेयर प्रमाणपत्रों का निर्गम |
| 14 | 05 | 14(5) | 40-41 | प्रभाव का कथन होगा कि वह "शेयर प्रमाणपत्र सं. के स्थान पर अनुकृति के रूप में" जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, "अनुकृति" शब्द शेयर प्रमाणपत्र में मोटे अक्षरों में स्टांपित या पंच किया जाएगा। | प्रभाव का कथन होगा कि वह "शेयर प्रमाणपत्र सं. के स्थान पर अनुकृति (डुप्लिकेट) के रूप में" जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, "अनुकृति" (डुप्लिकेट) शब्द शेयर प्रमाणपत्र में मोटे अक्षरों में स्टांपित या पंच किया जाएगा। |
| 15 | 06 | 15(2) | 22 | किसी शेयर के अंतरण के लिखित को अनुसंगी बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर अंतरक द्वारा या उसके निमित्त | किसी शेयर के अंतरण के लिखित को अनुसंगी बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर अंतरक द्वारा या उसके निमित्त |
| 16 | 07 | 18(3) | 40 | में रजिस्टर करना कारित करेगी जो मृतक शेयर धारक द्वारा किए गए नामनिर्देशन के अनुसार शेयरों का हकदार है। | में रजिस्टर करेगी/कराएगी जो मृतक शेयर धारक द्वारा किए गए नामनिर्देशन के अनुसार शेयरों का हकदार है। |
| 17 | 08 | 19 | 11 | शेयर धारक की मृत्यु, दिवालियापन आदि की दशा में शेयरों का पारेषण (जब कोई नामनिर्देशन नहीं हो) | शेयर धारक की मृत्यु, दिवालियापन आदि की दशा में शेयरों का पारेषण (ट्रांसमिशन) (जब कोई नामनिर्देशन नहीं हो)- |
| 18 | 08 | 19(1) | 24 | परंतु ऐसा होने पर भी कि किसी मामले में, जहां बोर्ड या कार्यपालक समिति अपने स्व:विवेकाधिकार के आधार पर | परंतु ऐसा होने पर भी कि किसी मामले में, जहां बोर्ड या कार्यपालक समिति अपने स्वविवेकाधिकार के आधार पर |
| 19 | 08 | 19(2)(क) | 35 | प्रस्तावित अंतरिती था कि वह शेयर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए अर्हित है, को शेयरों के संबंध में शेयर | प्रस्तावित अंतरिती था कि वह शेयर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए योग्य है, को शेयरों के संबंध में शेयर |
| 20 | 08 | 20 | 39-41 | शेयरधारक का रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होना प्रविरत होना- अनुसंगी बैंक के शेयरधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत, चाहे अकेले या अन्य के साथ संयुक्त रूप से या अन्य के साथ किसी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि किसी शेयर के संबंध में उस रूप में रजिस्ट्रीकृत होने से अर्हित होने के प्रविरत होने पर तुरंत उसकी बोर्ड या कार्यपालक समिति को सूचना दे। | शेयरधारक का रजिस्ट्रीकरण के लिए अयोग्य होना— अनुसंगी बैंक के शेयरधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत, चाहे अकेले या अन्य के साथ संयुक्त रूप से या अन्य के साथ किसी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि किसी शेयर के संबंध में उस रूप में रजिस्ट्रीकृत होने से अयोग्य होने पर तुरंत उसकी बोर्ड या कार्यपालक समिति को सूचना दे। |

| | | | | | |
|----|----|----------|-------|---|--|
| 21 | 09 | 21 | 01 | अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करने में सक्षम होगी और बोर्ड या कार्यपालक समिति "किसी निर्गम के लिए रजिस्टार" और | अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करने में सक्षम होगी और बोर्ड या कार्यपालक समिति "किसी निर्गम के लिए रजिस्टार" और |
| 22 | 09 | 22 | 04-11 | जारी पूंजी, प्रतिसंहण और शेयरों के पुनःनिर्गम के लिए धन स्वीकार करने की रीति— (1) बोर्ड या कार्यपालक समिति शेयरधारकों से उनके द्वारा धृत शेयरों के संबंध में शेष असंदत्त धन की बाबत, चाहे शेयरों के न्यूनतम मूल्य के लेखे या प्रीमियम के माध्यम से, जो आबंटन के लिए शर्त है, जिसका नियत समय पर संदाय नहीं किया गया है के लिए उनके लिए संदाय की सूचना से चौदह दिन से अन्यून अवधि की सूचना देकर काल कर सकेगा और प्रत्येक शेयरधारक उस पर की गई प्रत्येक काल के लिए बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा नियत समय और स्थान पर या ऐसी पश्चात्पूर्ति तारीख पर, जो बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा नियत की जाए, रकम का संदाय करेगा। इसी काल को किस्तों में संदेय किया जा सकेगा और उसे भूतलक्षी रूप से उस तारीख से संदेय किया जा सकेगा जब बोर्ड या कार्यपालक समिति ने ऐसे काल को प्राधिकृत करने वाला संकल्प पारित किया था : | जारी पूंजी, समपहरण और शेयरों के पुनःनिर्गम के लिए धन स्वीकार करने की रीति— (1) बोर्ड या कार्यपालक समिति शेयरधारकों से उनके द्वारा धृत शेयरों के संबंध में शेष असंदत्त धन की बाबत, चाहे शेयरों के न्यूनतम मूल्य के लेखे या प्रीमियम के माध्यम से, जो आबंटन के लिए शर्त है, जिसका नियत समय पर संदाय नहीं किया गया है के लिए उनके लिए संदाय की सूचना से न्यूनतम चौदह दिन की अवधि की सूचना देकर काल कर सकेगा और प्रत्येक शेयरधारक उस पर की गई प्रत्येक काल के लिए बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा नियत समय और स्थान पर या ऐसी पश्चात्पूर्ति तारीख पर, जो बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा नियत की जाए, रकम का संदाय करेगा। इसी काल को किस्तों में संदेय किया जा सकेगा और उसे पिछली उस तारीख से संदेय किया जा सकेगा जिस तिथि से बोर्ड या कार्यपालक समिति ने ऐसे काल को प्राधिकृत करने वाला संकल्प पारित किया था : |
| 23 | 09 | 22(2) | 18 | या भागतः अधित्यजन कर सकेगी। | या आंशिक रूप से अधित्यजन (माफ) कर सकेगी। |
| 24 | 09 | 22(3)(क) | 19 | यदि कोई शेयरधारक किसी शेयर के संबंध में किसी काल या किस्त या किसी धन का पूर्णतः या भागतः या तो मूल | यदि कोई शेयरधारक किसी शेयर के संबंध में किसी काल या किस्त या किसी धन का पूर्णतः या आंशिक रूप से या तो मूल |
| 25 | 09 | 22(3)(क) | 22 | व्यक्ति (यदि कोई हो), जो अंतरण द्वारा शेयरों का हकदार है, पर प्रतिसंहण की सूचना की तामील कर सकेगा, उससे ऐसे | व्यक्ति (यदि कोई हो), जो अंतरण द्वारा शेयरों का हकदार है, पर समपहरण की सूचना की तामील कर सकेगा, उससे ऐसे |
| 26 | 09 | 22(3)(ख) | 25-28 | प्रतिसंहण की सूचना में ऐसी तारीख का कथन होगा, जो सूचना की तारीख से चौदह दिन से अन्यून नहीं होगी, और उस पर उस समय तथा तारीख का कथन होगा, जिसको काल या किस्त या शेष असंदत्त ब्याज का संदाय किया जाना है और संदाय के लिए नियत तारीख तक शोध्य रकम का संदाय न किए जाने की दशा में वे शेयर, जिनके बाबत काल किया गया था और रकम शोध्य थी, प्रतिसंहण के दायी होंगे। | समपहृत की सूचना में ऐसी तारीख का कथन होगा, जो सूचना की तारीख से चौदह दिन से अन्यून नहीं होगी, और उस पर उस समय तथा तारीख का कथन होगा, जिसको काल या किस्त या शेष असंदत्त ब्याज का संदाय किया जाना है और संदाय के लिए नियत तारीख तक शोध्य रकम का संदाय न किए जाने की दशा में वे शेयर, जिनके बाबत काल किया गया था और रकम शोध्य थी, समपहरण के दायी होंगे। |
| 27 | 09 | 22(4) | 29-32 | यदि शेयरधारक या कोई अन्य व्यक्ति, जिस पर प्रतिसंहण की सूचना की तामील की गई है, उसका अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह शेयर, जिनकी बाबत प्रतिसंहण की सूचना दी गई थी, संदाय के लिए नियत तारीख के पश्चात् किसी भी समय बोर्ड या कार्यपालक समिति के संकल्प द्वारा प्रतिसंहृत किए जा सकेंगे और ऐसे प्रतिसंहृत में प्रतिसंहृत शेयरों के संबंध में सभी असंदत्त लाभांश शामिल होंगे। | यदि शेयरधारक या कोई अन्य व्यक्ति, जिस पर समपहरण की सूचना की तामील की गई है, उसका अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह शेयर, जिनकी बाबत समपहरण की सूचना दी गई थी, संदाय के लिए नियत तारीख के पश्चात् किसी भी समय बोर्ड या कार्यपालक समिति के संकल्प द्वारा समपहृत किए जा सकेंगे और ऐसे समपहरण में समपहृत शेयरों के संबंध में सभी असंदत्त लाभांश शामिल होंगे। |

| | | | | | |
|----|----|--------------|-------|--|--|
| 28 | 09 | 22(5) | 33-34 | इस प्रकार प्रतिसंहत किसी भी शेयर को अनुपंगी बैंक की परिसंपत्ति समझा जाएगा और उसका विक्रय, पुनःआबंटन या अन्यथा किसी व्यक्ति को ऐसे शर्तों पर और ऐसी रीति में, जैसा बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा विनिश्चय किया जाए, | इस प्रकार समपहृत किसी भी शेयर को अनुपंगी बैंक की परिसंपत्ति समझा जाएगा और उसका विक्रय, पुनःआबंटन या अन्यथा किसी व्यक्ति को ऐसी शर्तों पर और ऐसी रीति में, जैसा बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा विनिश्चय किया जाए, |
| 29 | 09 | 22(6) | 39 | नहीं होगा, न ही उसका शेयर पर मालिकाना हक प्रतिसंहण, विक्रय, पुनःआबंटन या शेयर के अन्यथा निपटान के संदर्भ में | नहीं होगा, न ही उसका शेयर पर मालिकाना हक समपहरण , विक्रय, पुनःआबंटन या शेयर के अन्यथा निपटान के संदर्भ में |
| 30 | 10 | 22(7) | 1-3 | बोर्ड या कार्यपालक समिति, किसी भी समय उपनियम (4) के अधीन इस प्रकार प्रतिसंहत शेयर का विक्रय, पुनःआबंटन या अन्यथा निपटान किए जाने से पूर्व उसके प्रतिसंहत किए जाने को ऐसी शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, बातिल कर सकेगी। | बोर्ड या कार्यपालक समिति, किसी भी समय उपनियम (4) के अधीन इस प्रकार समपहृत (फॉरफीचर) शेयर का विक्रय, पुनःआबंटन या अन्यथा निपटान किए जाने से पूर्व उसके प्रतिसंहत किए जाने को ऐसी शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, निष्प्रभावी कर सकेगी। |
| 31 | 10 | 22(8) | 4-6 | कोई शेयरधारक, जिसके शेयरों को प्रतिसंहत कर दिया गया है, प्रतिसंहण के होते हुए भी संदाय करने का दायी होगा और तुरंत अनुपंगी बैंक को सभी कालों, किस्तों, व्ययों और अन्य धन का, जो ऐसे शेयरों की बाबत प्रतिसंहण के समय देय है, उन पर प्रतिसंहण के समय से ऐसी दर पर, जो बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय करेगा | कोई शेयरधारक, जिसके शेयरों को समपहृत कर दिया गया है, समपहरण (फॉरफीचर) के होते हुए भी संदाय करने का दायी होगा और तुरंत अनुपंगी बैंक को सभी कालों, किस्तों, व्ययों और अन्य धन का, जो ऐसे शेयरों की बाबत समपहरण के समय देय है, उन पर समपहरण के समय से ऐसी दर पर, जो बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय करेगा |
| 32 | 10 | 22(9) | 11 | अनुदत्त कोई अनुग्रह इन विनियमों के अधीन ऐसे शेयरों के प्रतिसंहण को निवारित नहीं करेगा। | अनुदत्त कोई अनुग्रह इन विनियमों के अधीन ऐसे शेयरों के समपहरण को नहीं रोकेगा। |
| 33 | 10 | 22(10) | 12 | अनुपंगी बैंक द्वारा लिखित में सम्यक्तः प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र कि शेयरों का प्रतिसंहण बोर्ड | अनुपंगी बैंक द्वारा लिखित में सम्यक्तः प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र कि शेयरों का समपहरण बोर्ड |
| 34 | 10 | 22(11) | 15-16 | जब उपविनियम (4) के अधीन किसी शेयर का प्रतिसंहण कर लिया जाता है, तारीख सहित रजिस्टर में उसके प्रतिसंहण की प्रविष्टि की जाएगी। | जब उपविनियम (4) के अधीन किसी शेयर का समपहरण कर लिया जाता है, तारीख सहित रजिस्टर में उसके समपहरण की प्रविष्टि की जाएगी। |
| 35 | 10 | 22(12) | 17-19 | किसी शेयर का प्रतिसंहण, प्रतिसंहण के समय उसमें सभी हित और अनुपंगी बैंक के विरुद्ध सभी दावों और मांगों का उस शेयर की बाबत तथा उस शेयर से अनुपंगी सभी अधिकारों का सिवाय केवल उन अधिकारों का, जिनका इन विनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से अधित्यजन कर दिया गया है, उन्मूलन कर देगा। | किसी शेयर का समपहरण , समपहरण के समय उसमें सभी हित और अनुपंगी बैंक के विरुद्ध सभी दावों और मांगों का उस शेयर की बाबत तथा उस शेयर से अनुपंगी सभी अधिकारों का सिवाय केवल उन अधिकारों का, जिनका इन विनियमों द्वारा स्पष्ट रूप से अधित्यजन (माफ) कर दिया गया है, उन्मूलन कर देगा। |
| 36 | 10 | 22(13) | 20 | उपविनियमों के अनुसार प्रतिसंहत शेयरों की बिक्री, पुनःनिर्गम या अन्य निपटान पर संबंधित शेयरों के संबंध में मूलतः जारी प्रमाणपत्र (सिवाय तब जब बैंक द्वारा उनकी मांग किए जाने पर पूर्व में ही व्यतिक्रमी शेयरधारक द्वारा उनका अभ्यर्पण कर दिया गया है) रद्द हो जाएगा तथा अकृत और शून्य हो जाएगा तथा अप्रभावी हो जाएगा। | उपविनियमों के अनुसार समपहृत शेयरों की बिक्री, पुनःनिर्गम या अन्य निपटान पर संबंधित शेयरों के संबंध में मूलतः जारी प्रमाणपत्र (सिवाय तब जब बैंक द्वारा उनकी मांग किए जाने पर पूर्व में ही व्यतिक्रमी शेयरधारक द्वारा उनका अभ्यर्पण कर दिया गया है) रद्द हो जाएगा तथा अकृत और शून्य हो जाएगा तथा अप्रभावी हो जाएगा। |
| 37 | 10 | 22(18)(क)(i) | 37 | सभी शेयरों पर (जो पूर्णतः संदत्त शेयर नहीं हैं), जो किसी एकमात्र व्यक्ति के नाम रजिस्ट्रीकृत हैं, उसके द्वारा या | सभी शेयरों पर (जो पूर्णतः संदत्त शेयर नहीं हैं), जो किसी एकमात्र व्यक्ति के नाम हैं, उसके द्वारा या |

| | | | | | |
|----|----|----------|-------|---|---|
| 38 | 12 | अध्याय 3 | 12 | इलेक्ट्रानिकी प्ररूप में शेयर रजिस्टर का अनुरक्षण और कंप्यूटर आदि में शेयरधारकों के रजिस्टर का अनुरक्षण करने के लिए सुरक्षोपाय | इलेक्ट्रॉनिकी प्ररूप में शेयर रजिस्टर का अनुरक्षण और कंप्यूटर आदि में शेयरधारकों के रजिस्टर का अनुरक्षण करने के लिए सुरक्षोपाय |
| 39 | 12 | 23 | 14-19 | इलेक्ट्रानिकी प्ररूप आदि में शेयर रजिस्टर का अनुरक्षण —इन विनियमों के अध्याय 2 में वर्णित के साथ पठित अधिनियम की धारा 21 के अधीन शेयर रजिस्टर में दर्ज किए जाने के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का कंप्यूटर में मैग्नेटिक या ऑप्टिकल या मैग्नेटो-ऑप्टिकल मीडिया में डिस्कट, फ्लोपी, कार्ट्रिज या अन्यथा (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में "मीडिया" कहा गया है) ऐसे अवस्थानों पर जिनका समय-समय पर प्रबंध निदेशक या इस निमित्त प्रबंध निदेशक के निमित्त महाप्रबंधक के रैंक से अन्यून विनिर्दिष्ट अन्य अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पदनामित अधिकारी" कहा गया है) द्वारा विनिश्चय किया जाए, अनुरक्षण किया जाएगा। | इलेक्ट्रॉनिकी प्ररूप आदि में शेयर रजिस्टर का अनुरक्षण —इन विनियमों के अध्याय 2 में वर्णित के साथ पठित अधिनियम की धारा 21 के अधीन शेयर रजिस्टर में दर्ज किए जाने के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का कंप्यूटर में मैग्नेटिक या ऑप्टिकल या मैग्नेटो-ऑप्टिकल मीडिया में डिस्क , फ्लोपी, कार्ट्रिज या अन्यथा (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में "मीडिया" कहा गया है) ऐसे अवस्थानों पर जिनका समय-समय पर प्रबंध निदेशक या इस निमित्त प्रबंध निदेशक के निमित्त कम से कम महाप्रबंधक के रैंक के विनिर्दिष्ट अन्य अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पदनामित अधिकारी" कहा गया है) द्वारा विनिश्चय किया जाए, अनुरक्षण किया जाएगा। |
| 40 | 12 | 24 | 22 | प्राधिकृत किया जाए और पासवर्ड, यदि कोई हों, और/या इलेक्ट्रानिकी सुरक्षा नियंत्रण प्रणालियों को उक्त व्यक्तियों की | प्राधिकृत किया जाए और पासवर्ड, यदि कोई हों, और/या इलेक्ट्रानिकी सुरक्षा नियंत्रण प्रणालियों को उक्त व्यक्तियों की |
| 41 | 12 | 25 | 37 | सुरक्षापायों के संबंध में अनुदेशों, अनुबंधों में वर्धन या उपांतरण करे। | सुरक्षापायों के संबंध में अनुदेशों, अनुबंधों में वर्धन या उपांतरण (माडिफाई) करे। |
| 42 | 13 | 26(क) | 05 | सूचना बैठक की तारीख से 28 दिन से अन्यून पूर्व भारत में व्यापक परिचालन रखने वाले कम से कम दो दैनिक | सूचना बैठक की तारीख से न्यूनतम 28 दिन पूर्व भारत में व्यापक परिचालन रखने वाले कम से कम दो दैनिक |
| 43 | 13 | 27(1) | 10-11 | शेयरधारकों के कुल मत अधिकारों का 20 प्रतिशत से अन्यून रखते हैं, से ऐसी बैठक की अध्यक्षता प्राप्त होती है तो शेयरधारकों की विशेष साधारण बैठक का बुलाना कारित करेगा। | शेयरधारकों, जो सभी शेयरधारकों के कुल मत अधिकारों का न्यूनतम 20 प्रतिशत रखते हैं, से ऐसी बैठक को बुलाने का अनुरोध प्राप्त होता है, तो शेयरधारकों की विशेष साधारण बैठक बुला सकते हैं या बुलायी जा सकती है। |
| 44 | 13 | 27(2) | 12-13 | उपविनियम (1) में निर्दिष्ट अध्यक्षता उस प्रयोजन का कथन करेगी जिसके लिए विशेष साधारण बैठक बुलाई जानी है और उसमें उसी तरह के अनेक दस्तावेज हो सकेंगे, जिन पर प्रत्येक पर एक या अधिक अध्यक्षकर्ताओं के हस्ताक्षर होंगे। | उपविनियम (1) में निर्दिष्ट अनुरोध उस प्रयोजन का कथन करेगी जिसके लिए विशेष साधारण बैठक बुलाई जानी है और उसमें उसी तरह के अनेक दस्तावेज हो सकेंगे, जिन पर प्रत्येक पर एक या अधिक अनुरोधकर्ताओं के हस्ताक्षर होंगे। |
| 45 | 13 | 27(3) | 15 | परंतु अध्यक्षता पर बुलाई गई विशेष साधारण बैठक, अध्यक्षता की प्राप्ति के 45 दिन के बाद नहीं बुलाई जाएगी। | परंतु अनुरोध पर बुलाई गई विशेष साधारण बैठक, अनुरोध की प्राप्ति के 45 दिन के बाद नहीं बुलाई जाएगी। |
| 46 | 13 | 28(1) | 18-19 | जाएगी, जब तक कि उसके लिए छह सप्ताह से अन्यून की सूचना अनुपंगी बैंक के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक को या तो स्टेट बैंक द्वारा या बैठक में मत देने के लिए अर्हित कम से कम दस अन्य शेयरधारकों द्वारा न दी गई हो। ऐसी सूचना बैठक में रखे जाने | जाएगी, जब तक कि उसके लिए न्यूनतम छह सप्ताह की सूचना अनुपंगी बैंक के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक को या तो स्टेट बैंक द्वारा या बैठक में मत देने के लिए योग्य कम से कम दस अन्य शेयरधारकों द्वारा न दी गई हो। ऐसी सूचना बैठक में रखे जाने |
| 47 | 13 | 29 | 26-27 | नियत समय से पन्द्रह मिनट के भीतर यदि गणपूर्ति उपस्थित नहीं होती है तो अध्यक्ष या साधारण साधारण बैठक की | नियत समय से पन्द्रह मिनट के भीतर यदि गणपूर्ति उपस्थित नहीं होती है तो अध्यक्ष या साधारण बैठक की |
| 48 | 14 | 31(2)(ख) | 10 | उसके शेयरों की सुभिन्न संख्या ; | उसके शेयरों की भिन्न संख्या ; |

| | | | | | |
|----|----|-------------|-------|--|---|
| 49 | 14 | 32(4) | 27 | किसी व्यक्ति की मत देने की अर्हता और किसी मतदान की दशा में किसी व्यक्ति द्वारा मतों की संख्या, जिनका उपयोग | किसी व्यक्ति की मत देने की योग्यता और किसी मतदान की दशा में किसी व्यक्ति द्वारा मतों की संख्या, जिनका उपयोग |
| 50 | 15 | 35(1) | 08 | ओर से उन्हीं शक्तियों का निर्वहन करने का हकदार होगा मानो वह अनुपंगी बैंक का व्यष्टिक शेयरधारक था। इस प्रकार | ओर से उन्हीं शक्तियों का निर्वहन करने का हकदार होगा मानो वह अनुपंगी बैंक का व्यष्टिक (इंडिविजुअल) शेयरधारक था। इस प्रकार |
| 51 | 15 | 35(4) | 22 | किसी प्रॉक्सी को प्रतिसंहत कर देगी। | किसी प्रॉक्सी को समपहृत (फॉरफीचर) कर देगी। |
| 52 | 15 | 36 | 23-26 | सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किए जाने वाले मतदान द्वारा प्रॉक्सी द्वारा किए गए जाने वाले मतदान को प्रवारित करना— अनुपंगी बैंक का कोई शेयरधारक, जो कंपनी नहीं है, तब तक प्रॉक्सी द्वारा मत नहीं देगा जब तक अनुपंगी बैंक की किसी साधारण बैठक में विनियम 35 में निर्दिष्ट संकल्प या दिया गया मुख्तारनामा उसके किन्हीं कार्मिकों या अन्य व्यक्ति को उसके सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रवारित रहता है। | सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किए जाने वाले मतदान द्वारा प्रॉक्सी द्वारा किए जाने वाले मतदान को प्रतिबाधित करना— अनुपंगी बैंक का कोई शेयरधारक, जो कंपनी है, तब तक प्रॉक्सी द्वारा मत नहीं देगा जब तक अनुपंगी बैंक की किसी साधारण बैठक में विनियम 35 में निर्दिष्ट संकल्प या दिया गया मुख्तारनामा उसके किन्हीं कार्मिकों या अन्य व्यक्ति को उसके सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जाता हो। |
| 53 | 15 | 37(1) | 33 | अपना नाम लिखने में असमर्थ है, यदि उस पर उसके चिन्ह को चस्पा किया गया है और उसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, | अपना नाम लिखने में असमर्थ है, यदि उस पर उसके चिन्ह को लगाया गया है और उसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, |
| 54 | 16 | 37(5) | 03 | इस प्रकार जमा किया गया प्रॉक्सी का लिखत अप्रतिसंहणीय होगा | इस प्रकार जमा किया गया प्रॉक्सी का लिखत समपहरण योग्य होगा— |
| 55 | 16 | 37(5)(i)(ख) | 08 | यह कि ऐसे लिखत का प्रतिसंहण कर लिया गया है; या | यह कि ऐसे लिखत का समपहरण कर लिया गया है |
| 56 | 16 | 37(5) | 10-12 | वैकल्पिक रूप से दो अनुदाताओं के पक्ष में अनुदत्त प्रॉक्सी लिखत की दशा में प्रतिसंहण की सूचना में दूसरे या वैकल्पिक अनुदाता के नाम का वर्णन करना आवश्यक नहीं होगा परंतु यह कि सूचना अन्यथा संदेह से परे उस प्रॉक्सी के लिखत, जिसको प्रतिसंहत करने का आशय है, की पहचान करने में पर्याप्त है। | वैकल्पिक रूप से दो अनुदाताओं के पक्ष में अनुदत्त प्रॉक्सी लिखत की दशा में समपहरण की सूचना में दूसरे या वैकल्पिक अनुदाता के नाम का वर्णन करना आवश्यक नहीं होगा परंतु यह कि सूचना अन्यथा संदेह से परे उस प्रॉक्सी के लिखत, जिसको समपहृत करने का आशय है, की पहचान करने में पर्याप्त है। |
| 57 | 16 | 37(6) | 15 | सम्यकता प्रतिसंहण नहीं किया गया है तो प्रॉक्सी के ऐसे सभी लिखतों को अविधिमान्य माना जाएगा। | सम्यकता समपहृत नहीं किया गया है तो प्रॉक्सी के ऐसे सभी लिखतों को अविधिमान्य माना जाएगा। |
| 58 | 16 | 37(7) | 16-17 | किसी प्रॉक्सी लिखत का सम्यकता प्रतिसंहण किसी भी प्रकार से किसी अन्य विधिमान्य प्रॉक्सी विलेख को उस संबंध में उपविनियम (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर जमा करने से निवारित नहीं करेगा। | किसी प्रॉक्सी लिखत का सम्यकता समपहरण किसी भी प्रकार से किसी अन्य विधिमान्य प्रॉक्सी विलेख को उस संबंध में उपविनियम (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर जमा करने से नहीं रोकेगा। |
| 59 | 16 | 37(8) | 18 | किसी प्रॉक्सी लिखत, जो इस विनियम के अधीन अप्रतिसंहणीय हो गई है, का अनुदाता उस बैठक में जिससे ऐसा लिखत | किसी प्रॉक्सी लिखत, जो इस विनियम के अधीन अप्रतिसंहणीय हो गई है, का अनुदाता उस बैठक में जिससे ऐसा लिखत |
| 60 | 16 | 40(2) | 35 | तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व उस मूल्य पर, जो बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा समय-समय पर प्रति प्रति नियत | तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व उस मूल्य पर, जो बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा समय-समय पर प्रति काँपी नियत |
| 61 | 17 | 41(1)(ग) | 15 | वह अधिनियम की धारा 25क और धारा 27 के अधीन निदेशक बनने के लिए निरर्हित नहीं है; | वह अधिनियम की धारा 25क और धारा 27 के अधीन निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं है; |

| | | | | | |
|----|----|----------|-------|--|--|
| 62 | 17 | 42(1) | 22 | कार्यदिवस को उस पर प्रबंध निदेशक द्वारा विचारण किया जाएगा। प्रबंध निदेशक ऐसी जांच, यदि कोई हो, जैसा वह | कार्यदिवस को उस पर प्रबंध निदेशक द्वारा विचार किया जाएगा। प्रबंध निदेशक ऐसी जांच, यदि कोई हो, जैसा वह |
| 63 | 17 | 44(1) | 39-40 | यदि किसी व्यक्ति, जिसे निर्वाचित माना गया है या निर्वाचित घोषित किया गया है कि अर्हता या निरर्हता के संबंध में या अनुपंगी बैंक के निदेशक के निर्वाचन की विधिमान्यता पर कोई विवाद उद्भूत होता है तो हितबद्ध | यदि किसी व्यक्ति, जिसे निर्वाचित माना गया है या निर्वाचित घोषित किया गया है कि योग्य या अयोग्य के संबंध में या अनुपंगी बैंक के निदेशक के निर्वाचन की विधिमान्यता पर कोई विवाद उद्भूत होता है तो हितबद्ध |
| 64 | 18 | 45(2) | 14-16 | कोई अन्य तीन निदेशक, जो स्टेट बैंक के अधिकारी नहीं है, अध्यक्ष से बोर्ड की किसी भी समय बैठक बुलाने की अपेक्षा कर सकेंगे और अध्यक्ष अध्यक्षता की प्राप्ति पर पर्याप्त सूचना देते हुए बोर्ड की बैठक बुला सकेगा परंतु यह कि इस प्रकार बुलाई गई बैठक की तारीख अध्यक्षता की प्राप्ति की तारीख से 21 दिन के पश्चात् नहीं होगी। | कोई अन्य तीन निदेशक, जो स्टेट बैंक के अधिकारी नहीं है, अध्यक्ष से बोर्ड की किसी भी समय बैठक बुलाने का अनुरोध कर सकेंगे और अध्यक्ष ऐसे अनुरोध की प्राप्ति पर पर्याप्त सूचना देते हुए बोर्ड की बैठक बुला सकेगा परंतु यह कि इस प्रकार बुलाई गई बैठक की तारीख अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से 21 दिन के पश्चात् नहीं होगी। |
| 65 | 18 | 45(4) | 19 | साधारणतया, बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए 15 दिन से अन्यून की सूचना नहीं दी जाएगी और ऐसी सूचना प्रत्येक | साधारणतया, बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए न्यूनतम 15 दिन पहले सूचना दी जाएगी और ऐसी सूचना प्रत्येक |
| 66 | 18 | 45(8) | 29 | बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों की प्रति तत्पश्चात् यथासंभवशीघ्र निदेशकों की सूचना के लिए परिचालित की | बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों की प्रति तत्पश्चात् यथासंभव शीघ्र निदेशकों की सूचना के लिए परिचालित की |
| 67 | 18 | 46(1) | 33 | अंतिम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे : | अंतिम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे: |
| 68 | 19 | 47(1)(ख) | 04-05 | अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट तीन निदेशक, जिनमें से दो से अनधिक स्टेट बैंक के अधिकारी होंगे; और | अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट तीन निदेशक, जिनमें से अधिकतम दो स्टेट बैंक के अधिकारी होंगे |
| 69 | 19 | 47(2) | 13 | संबंध में यात्रा या रुकने के व्ययों की प्रतिपूर्ति किए जाने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उससे अनुपंगी बैंक द्वारा। | संबंध में यात्रा या रुकने के व्ययों की प्रतिपूर्ति किए जाने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उससे अनुपंगी बैंक द्वारा। |
| 70 | 19 | 47(5) | 21 | यदि इस विषय में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई विषय अनुपंगी बैंक के चालू कारबार से संबंधित है तो बैठक के | यदि इस विषय में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई विषय अनुपंगी बैंक के चालू कारबारसे संबंधित है तो बैठक के |
| 71 | 19 | 48(2) | 30 | समय के दौरान गणपूर्ति होंगे। तथापि, यह कि उस समय मद देने के हकदार कम से कम दो निदेशक उपस्थित हैं। | समय के दौरान गणपूर्ति होंगे। तथापि, यह कि उस समय मत देने के हकदार कम से कम दो निदेशक उपस्थित हैं। |
| 72 | 20 | 51 | 13 | निदेशकों की फीस - कोई निदेशक, जो प्रबंध निदेशक नहीं है या केंद्रीय सरकार या रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक के किसी | निदेशकों की फीस - कोई निदेशक, जो प्रबंध निदेशक नहीं है या केंद्रीय सरकार या रिज़र्व बैंक या स्टेट बैंक के किसी |
| 73 | 20 | 51(ग) | 22 | लिए परामर्श दिया जाए या ऐसी राशि जैसा बोर्ड अंतर्वलित कार्य की प्रकृति और रकम के संबंध में समय-समय पर | लिए परामर्श दिया जाए या ऐसी राशि जैसा बोर्ड सम्मिलित कार्य की प्रकृति और रकम के संबंध में समय-समय पर |
| 74 | 20 | 52(2) | 27 | कोई निदेशक, जो सरकार, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक का अधिकारी है, को उसे लागू नियमों के अनुसार यात्रा और ठहरने के | कोई निदेशक, जो सरकार, रिज़र्व बैंक, स्टेट बैंक का अधिकारी है, को उसे लागू नियमों के अनुसार यात्रा और ठहरने के |

| | | | | | |
|----|----|-----------|-------|--|--|
| 75 | 20 | 54(ख) | 38 | किसी व्यष्टि या भागीदारी फर्म, जिसके अंतर्गत संयुक्त हिन्दू कुटुंब फर्म है, की उस स्थान पर संदेय, जहां वह | किसी व्यक्ति या भागीदारी फर्म, जिसके अंतर्गत संयुक्त हिन्दू कुटुंब फर्म है, की उस स्थान पर संदेय, जहां वह |
| 76 | 21 | 54(ख) | 02 | व्यक्तियों के अनेक उत्तरदायित्व नहीं है और उनमें से प्रत्येक पराक्रम्य लिखत की रकम के लिए अच्छा है | व्यक्तियों के अनेक उत्तरदायित्व नहीं है और उनमें से प्रत्येक पराक्रम्य लिखत की रकम के लिए अच्छा है ; |
| 77 | 21 | 55(क) | 11 | ग्राहकों के खाते, जिनका स्टेट बैंक द्वारा यथा नियत प्रतिभूति के साथ या उसके बिना उस सीमा तक अध्यादान | ग्राहकों के खाते, जिनका स्टेट बैंक द्वारा यथा नियत प्रतिभूति के साथ या उसके बिना उस सीमा तक ओवरड्रा |
| 78 | 21 | 55(ख)(i) | 14 | भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित जिला बोर्ड, नगरपालिक समिति या अन्य | भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित जिला बोर्ड, नगरपालिका समिति या अन्य |
| 79 | 21 | 55(ख)(ii) | 16-17 | अवक्रय संव्यवहारों के वित्तपोषण में लगे हुए व्यक्तियों को ऐसी प्रतिभूति पर, जो इस निमित्त स्टेट बैंक द्वारा अनुमोदित की जाए, पर 24 मास से अनधिक अवधि के लिए ; और | किराया खरीद लेनदेनों या ऐसे लेनदेनों के वित्तपोषण में लगे हुए व्यक्तियों को ऐसी प्रतिभूति पर, जो इस निमित्त स्टेट बैंक द्वारा अनुमोदित की जाए, पर अधिकतम 24 मास की अवधि के लिए ; और |
| 80 | 21 | 56 | 30-31 | वह न्यासी है या किसी प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, जिसमें वह सारवान हित रखता है, कोई ऋण या उधार अनुदत्त नहीं करेगा। | वह न्यासी है या किसी प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, जिसमें वह पर्याप्त हित रखता है, कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगा। |
| 81 | 22 | 57 | 03 | अग्रिमों की स्टेट बैंक को रिपोर्ट किया जाना | स्टेट बैंक को रिपोर्ट किए जाने वाले अग्रिम |
| 82 | 22 | 58(1)(ख) | 14 | कंपनियों या फर्मों या व्यष्टियों को, जिनके साथ ऐसे निदेशक या अधिकारी भागीदारों, निदेशकों या प्रबंधकों के | कंपनियों या फर्मों या व्यक्तियों को, जिनके साथ ऐसे निदेशक या अधिकारी भागीदारों, निदेशकों या प्रबंधकों के |
| 83 | 22 | 58(2) | 18-20 | में अनुषंगी बैंक की कार्यपालक समिति की विनिर्दिष्ट स्वीकृति के बिना अनुदत्त नहीं किया जाएगा यदि ऐसा ऋण या अग्रिम बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित निबंधनों और शर्तों के अनुसार अनुदत्त नहीं किया गया है या किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति पर अनुदत्त नहीं किया गया है। | में अनुषंगी बैंक की कार्यपालक समिति की विनिर्दिष्ट स्वीकृति के बिना प्रदान नहीं किया जाएगा यदि ऐसा ऋण या अग्रिम बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित निबंधनों और शर्तों के अनुसार प्रदान नहीं किया गया है या किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति के आधार पर प्रदान नहीं किया गया है। |
| 84 | 22 | 62 | 33 | सीमा नियत की जानी है या किसी प्रस्ताव इंतजाम या विनिधान या कोई ऋण या अग्रिम अनुदत्त किए जाने के लिए या | सीमा नियत की जानी है या किसी प्रस्ताव इंतजाम या विनिधान या कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किए जाने के लिए या |
| 85 | 23 | 63(1)(क) | 03 | अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार के अधीन और उसी रीति में परिवर्तित या उसका निर्वहन किया जा सकेगा ; | स्पष्ट या अन्तर्निहित प्राधिकार के अधीन और उसी रीति में परिवर्तित या उसका निर्वहन किया जा सकेगा |
| 86 | 23 | 64 | 09 | अनुषंगी बैंक के लेखे, प्राप्तियां और दस्तावेज पर जिस द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं | अनुषंगी बैंक के लेखे, प्राप्तियां और दस्तावेज पर कौन हस्ताक्षर करेगा |
| 87 | 23 | 64 | 18 | के रूप में गठित किया गया है, को पृष्ठांकित और अंतरित करने के लिए प्राधिकृत होगा, वह विनिमय बीजकों और चैकों को | के रूप में गठित किया गया है, को पृष्ठांकित और अंतरित करने के लिए प्राधिकृत होगा, वह विनिमय बीजकों और चैकों को |
| 88 | 23 | 64 | 20 | पर हस्ताक्षर करने के लिए सशक्त होगा। | पर हस्ताक्षर करने का अधिकार रहेगा। |
| 89 | 23 | 66(1) | 26-28 | निदेशकों की निरर्हताओं को अधिसूचित करने की बाध्यता— (1) यदि अनुषंगी बैंक का कोई | निदेशकों की अयोग्यता को अधिसूचित करने की बाध्यता— (1) यदि अनुषंगी बैंक का कोई |

| | | | | | |
|-----|----|-------|-------|---|---|
| | | | | निदेशक अधिनियम की धारा 27 में दी गई किसी भी निरर्हता का पात्र हो जाता है तो वह तुरंत उस तथ्य से और उस तारीख से, जिसको उसे निरर्हता लागू होती है, अनुपंगी बैंक के प्रबंध निदेशक को अधिसूचित करेगा। | निदेशक अधिनियम की धारा 27 में दी गई किसी भी अयोग्यता का पात्र हो जाता है तो वह तुरंत उस तथ्य से और उस तारीख से, जिसको उसकी अयोग्यता लागू होती है, अनुपंगी बैंक के प्रबंध निदेशक को अधिसूचित करेगा। |
| 90 | 23 | 66(2) | 29-30 | प्रबंध निदेशक बोर्ड और स्टेट बैंक को यथाशीघ्र उसकी सूचना में अनुपंगी बैंक के निदेशक के अधिनियम की धारा 27 में विनिर्दिष्ट किसी भी अर्हता का पात्र होने से संसूचित करेगा। | प्रबंध निदेशक को ज्योंही इस बात का पता लगता है कि अनुपंगी बैंक का कोई निदेशक इस अधिनियम की धारा 27 में विनिर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता का पात्र हो गया है, तो वह उसकी सूचना बोर्ड और स्टेट बैंक को देगा। |
| 91 | 23 | 67 | 31-34 | अनुपंगी बैंक की मुहर— (1) अनुपंगी बैंक की सामान्य मुहर किसी लिखत पर चस्पा नहीं की जाएगी सिवाय कम से कम दो निदेशकों की उपस्थिति के, जो अपने हस्ताक्षर उस लिखत पर उनकी उपस्थिति के रूप में दर्ज करेंगे और ऐसा हस्ताक्षर करना किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करने से स्वतंत्र होगा, जिसमें लिखत पर साक्षियों के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। जब तक कि यथापूर्वोक्त हस्ताक्षर ऐसा लिखत विधिमान्य नहीं होगा। | अनुपंगी बैंक की मुहर— (1) अनुपंगी बैंक की सामान्य मुहर किसी भी लिखत पर नहीं लगाई जाएगी सिवाय ऐसे मामलों के जहां कम से कम दो निदेशक उस लिखत पर अपनी उपस्थिति के रूप में उस पर हस्ताक्षर करते हैं और ऐसे हस्ताक्षर किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर से भिन्न होते हैं जिसने उस लिखत पर साक्षियों के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। जब तक कि यथापूर्वोक्त हस्ताक्षर नहीं किए जाएं, तब तक ऐसा लिखत विधिमान्य नहीं होगा। |
| 92 | 24 | 68(1) | 06 | किसी अन्य रीति में या उस शेयरधारक को इलेक्ट्रॉनिकी मेल द्वारा, जो ऐसी सूचना को इलेक्ट्रॉनिकी मेल द्वारा प्राप्त करने का | किसी अन्य रीति में या उस शेयरधारक को इलेक्ट्रॉनिकी मेल द्वारा, जो ऐसी सूचना को इलेक्ट्रॉनिकी मेल द्वारा |
| 93 | 24 | 68(6) | 24 | अनुपंगी बैंक द्वारा दी जाने वाली किसी सूचना में हस्ताक्षर लिखित, टाइपकृत या मुद्रित हो सकेंगे। | अनुपंगी बैंक द्वारा दी जाने वाली किसी सूचना में हस्ताक्षर लिखित, टंकित या मुद्रित हो सकेंगे। |
| 94 | 24 | 70(2) | 30 | किसी लाभांश पर अनुपंगी बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं होगा। | किसी लाभांश पर अनुपंगी बैंक द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। |
| 95 | 24 | 70(4) | 33 | लाभांश का संदाय चैक या अनुपंगी बैंक के मुख्यालय पर अधिदेश द्वारा किया जाएगा और उसे हकदार शेयरधारकों के | लाभांश का संदाय चैक या अनुपंगी बैंक के मुख्यालय पर अधिदेश द्वारा किया जाएगा और उसे हकदार शेयरधारकों के |
| 96 | 24 | 70(4) | 35 | नाम संयुक्त धारकों के संबंध में रजिस्टर में पहले है, भेजा जाएगा और इस प्रकार भेजा गया प्रत्येक चैक या अधिदेश उस | नाम संयुक्त धारकों के संबंध में रजिस्टर में पहले है, भेजा जाएगा और इस प्रकार भेजा गया प्रत्येक चैक या अधिदेश उस जिसे उसे भेजा गया है। |
| 97 | 24 | 70(5) | 38-39 | विनियमों में अधीन उसके लिए हकदार किसी व्यक्ति को या तो ऐसे व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे जमा कर या इलेक्ट्रॉनिक संदाय प्रणाली या रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिकी निधि अंतरण रीति में कर सकेगा। | विनियमों में अधीन उसके लिए हकदार किसी व्यक्ति को या तो ऐसे व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे जमा कर या इलेक्ट्रॉनिक संदाय प्रणाली या रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिकी निधि अंतरण रीति में कर सकेगा। |
| 98 | 25 | 71 | 05 | व्यवृत्ति खंड | व्यावृत्ति खंड (सेविंग क्लॉज)— |
| 99 | 25 | | 26-27 | (*नामनिर्देशिती के अल्पव्य होने की दशा में प्रस्तुत किया जाना है) **नामनिर्देशिती अल्पव्य है जिसका संरक्षक है: | (*नामनिर्देशिती के अल्पव्य होने की दशा में प्रस्तुत किया जाना है) **नामनिर्देशिती अल्पव्य है जिसका संरक्षक है: |
| 100 | 25 | | 32 | फोलियों संख्या। | फोलियो संख्या। |
| 101 | 25 | | 35 | अल्प व्यय के संरक्षक का नाम और पता। | अल्पव्य के संरक्षक का नाम और पता। |

| | | | | | |
|-----|----|--|-----------|---|---|
| 102 | 27 | | 3 | नामनिर्देशन में फेरफारया रद्द करने का प्ररूप | नामनिर्देशन में परिवर्तन या रद्द करने का प्ररूप |
| 103 | 27 | | 17-18 | (*नामनिर्देशिती के अल्पव्य होने की दशा में प्रस्तुत किया जाना है) **नामनिर्देशिती अल्पव्य है जिसका संरक्षक है: | (*नामनिर्देशिती के अल्पव्य होने की दशा में प्रस्तुत किया जाना है) **नामनिर्देशिती अल्पव्य है जिसका संरक्षक है: |
| 104 | 27 | | 29, 33 | फोलियों संख्या । अल्प व्यय के संरक्षक का नाम और पता । | फोलियो संख्या । अल्पव्य के संरक्षक का नाम और पता |
| 105 | 28 | | 38 | उचित स्टाम्प चस्पा करें । | उचित स्टाम्प लगाएं । |

प्रबंध निदेशक, कल्याण मुखर्जी
[विज्ञापन III/4/असा. /330-आई/15(381)]